

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 375]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-37/2019/18.—छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :—

1. रामानुजगंज नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है।

2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	विनोवा भावे वार्ड
2	महात्मा गांधी वार्ड
3	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
4	जवाहर लाल नेहरू वार्ड
5	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
6	सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
7	जयप्रकाश वार्ड
8	शिवाजी वार्ड
9	विवेकानंद वार्ड
10	सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड
11	इंदिरा गांधी वार्ड
12	राजीव गांधी वार्ड
13	बाल गंगाधर तिलक वार्ड
14	रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड
15	मदनमोहन मालवीय वार्ड

रामानुजगंज नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

वार्ड क्र. 01 विनोवाभावे वार्ड

- उत्तर - कन्हर नदी से अरुण केशरी ईटा भट्ठा पूर्व सीधा रिंग रोड पुलिया तक ।
- पूर्व - पुलिया से दक्षिण की ओर नाला होते कमल सिंह चौहाना निवास से दक्षिण, विमल अग्रवाल घर एवं छड़ सीमेन्ट दुकान तक
- दक्षिण - वाङ्गफनगर रोड विमल अग्रवाल घर से पश्चिम की ओर वाङ्गफनगर रोड जलकेश्वरपारा तक
- पश्चिम - वाङ्गफनगर रोड जलकेश्वरपारा से उत्तरी भाग सीधा कन्हर नदी तक, कन्हर नदी के किनारे-किनारे अरुण केशरी ईटा भट्ठा से दक्षिण पुलिया तक ।

वार्ड क्र. 02 महात्मा गांधी वार्ड

- उत्तर - हॉस्पिटल समीप वाङ्गफनगर रोड अटल चौक से पूर्व पेट्रोल पम्प होते लरंग साय चौक होते भारत माता चौक तक ।
- पूर्व - भारत माता चौक से दक्षिण की ओर आई.डी.एस.एम.टी. शॉपिंग काम्पलेक्स तक
- दक्षिण - भारत माता चौक से दक्षिण आई.डी.एस.एम.टी. शॉपिंग काम्पलेक्स से उत्तर भाग का सम्पूर्ण हिस्सा भरत तिवारी घर होते शिशु मंदिर के पीछे एवं भरत तिवारी घर से पश्चिम की ओर रिंग रोड मिलान तक
- पश्चिम - रिंग रोड वार्ड क्र. 02 बिन्दु से रिंग रोड होते अटल चौक वाङ्गफनगर व लरंग साय रोड मिलान तक

वार्ड क्र. 03 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

- उत्तर - ब्रह्मुण्डा घाट से उत्तर पूर्व की ओर कन्हार किनारे-किनारे भौरी घाट मिलान से निर्माणाधीन छात्रावास से पश्चिम हिस्सा तक।
- पूर्व - निर्माणाधीन छात्रावास के पश्चिम हिस्सा होते दक्षिण की ओर सुरेश तिवारी, बस स्टेण्ड रिंग रोड एवं प्रा.शा. जेलपारा मिलान तक
- दक्षिण - कालेज के उत्तर भाग होते पश्चिम की ओर चाईल्ड एजुकेशन होते पुलिया तक, पश्चिम पुलिया होते ब्रह्मुण्डा घाट तक उत्तर की ओर
- पश्चिम- पुलिया होते ब्रह्मुण्डा घाट तक उत्तर की ओर तक

वार्ड क्र. 04 जवाहर लाल नेहरू वार्ड

- उत्तर - अरुण केशरी ईटा भट्टा समीप पुल तक से कॉलेज से पूर्व दिशा जेल रोड तक जेल रोड किनारे-किनारे दाहिना हिस्सा जल संसाधन विभाग तक, जल संसाधन सीधा पूर्व ओझा जी के घर तक
- पूर्व - ओझा जी घर से दक्षिण की ओर स्व. दिवाकर मिश्रा घर होते गोकुल होटल तक
- दक्षिण - गोकुल होटल से लरंग साय शॉपिंग काम्पलेक्स दुकान होते पश्चिम की ओर शंकर गुप्ता घर तक
- पश्चिम- पेट्रोल पम्प के सामने सीधे उत्तर की ओर शंकर गुप्ता घर होते नाला होते अरुण केशरी ईटा भट्टा तक

वार्ड क्र. 05 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

- उत्तर - प्रा.शा. जेलपारा से पूर्व की ओर व्यासमुनी घर तक।
- पूर्व - व्यासमुनी यादव घर से दक्षिण की ओर दीपक दुबे के खाली प्लॉट, आर.के. यादव के बगल से सीधा पश्चिम की ओर गौरव दुबे के वॉशिंग सेंटर से पूर्व सी.सी. रोड सुरेन्द्र विश्वकर्मा घर होते दक्षिण की ओर रमेश कुशवाहा घर के पश्चिम सी.सी. रोड के पश्चिमी हिस्सा होते सत्यनारायण केशरी के घर तक
- दक्षिण - सत्यनारायण केशरी के घर से पश्चिम की ओर एस.डी.एम. तहसील कार्यालय होते हुये संजय कश्यप घर तक
- पश्चिम- संजय कश्यप घर से उत्तर की ओर लखन रजक घर के सीधे उत्तर की ओर दीलिप ओझा घर के सामने का उत्तर भाग होते पश्चिम की ओर अजय गुप्ता घर तक, अजय गुप्ता के घर से उत्तर की ओर कस्तुरबा आवासीय विद्यालय होते प्रा.शा. जेलपारा तक

वार्ड क्र. 06 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड

- उत्तर - शैलेश गुप्ता के मकान से पूर्व की ओर रिंग रोड प्रा.शा.जेल पारा रोड दूबे घाट रोड मकान से विरझु गुप्ता घर तक
- पूर्व - विरझु गुप्ता घर से दक्षिण की ओर माँ शारदा स्कूल होते तिवारी जी घर तक
- दक्षिण - बस स्टैण्ड रिंग रोड मिलान से पश्चिम भाग की ओर अशोक कटकवार घर होते थाना कन्या प्रा. शाला के सामने विमल एजेन्सी से पश्चिम चौपाटी होते यातायात से पश्चिम की ओर न्यायालय होते अम्बेडकर पार्क तक
- पश्चिम- रमेश कुशवाहा घर तक सीधा उत्तर सुरेन्द्र विश्वकर्मा घर से पश्चिम की ओर गौरव दूबे वाशिंग सेंटर होते अरविन्द दूबे का जमीन पश्चिम की ओर खाली प्लॉट तक अरविन्द दूबे खाली प्लॉट से उत्तर शैलेश गुप्ता भवन तक

वार्ड क्र. 07 जय प्रकाश वार्ड

- उत्तर - निर्माणाधीन छात्रावास से पूर्व कन्हर नदी मिलान से दूबे घाट बुद्ध टोला स्कूल मार्ग पुलिया मिलान तक तथा बस स्टैण्ड चौक थाना अस्पताल कि रोड कृषि उपज मंडी पुराना कार्यालय रोड के मिलान बिन्दू तक
- पूर्व- कन्हर नदी बुद्ध टोला नाला मिलान से लाख फैक्ट्री के दक्षिण तरफ का रोड मिलान तक
- दक्षिण - दयाराम राहगीर की पुराना मंडी कार्यालय रोड के सामने थाना अस्पताल रोड के मिलान से पूर्व की ओर बैंक रोड पार करते हुए लाख फैक्ट्री के दक्षिण तरफ से कन्हर नदी मिलान तक
- पश्चिम- मनभावन के सामने से दक्षिण की ओर कन्हैया सोनी के घर से होते पश्चिम की ओर सी.आर.पी.एफ. कैम्प के सामने रोड क्रास के पास आंगनबाड़ी भवन होते हुये थाना रोड मिलान से शिव मंदिर चौक होते हुये शास्त्री चौक क्रास करते हुये उत्तर की ओर सीधे प्रा.शा. बुद्ध टोला होते निर्माणाधीन छात्रावास तक

वार्ड क्र. 08 शिवाजी वार्ड

- उत्तर - वन विभाग कार्यालय से पूर्व की ओर एस.डी.ओ.पी. कार्यालय से दक्षिण की ओर सी. आर.पी.एफ. कैम्प के सामने रोड क्रास कर डेली यूज निवास होते केशर अग्रवाल खाद बीज दुकान तक
- पूर्व - केशर अग्रवाल खाद बीज दुकान से दक्षिण की ओर स्टेट बैंक होते गांधी चौक विजय तिवारी घर तक
- दक्षिण - विजय तिवारी घर से पश्चिम की ओर रहमान बाबु घर के सामने रोड क्रास दक्षिण की ओर दिलीप सोनी के घर होते नरेश गुप्ता घर से होते पश्चिम की ओर उमा होटल रोड क्रास भारत माता चौक तक
- पश्चिम- भारत माता चौक से उत्तर की ओर वन विभाग कार्यालय के गेट तक

वार्ड क्र. 09 विवेकानन्द वार्ड

- उत्तर — मनभावन ड्रेसेस से पूर्व में शोभनाथ पंखा निवास होते कन्हर के किनारे तक
- पूर्व — कन्हर किनारे-किनारे दक्षिण की ओर राम मंदिर होते हुये फकीरा नाला किनारे-किनारे होते हुये लक्ष्मी अग्रवाल निवास समीप नाला तक
- दक्षिण — लक्ष्मी अग्रवाल समीप नाला के किनारे-किनारे होते हुये अजय गुप्ता (ठेकेदार) नये निवास समीप नाला से होते हुये आढ़त चौक तक
- पश्चिम — विश्वनाथ साव घर होत पूर्व की ओर आढ़त चौक से उत्तर होते हुये पीपल चौक, गांधी चौक होते हुये मनभावन ड्रेसेस तक

वार्ड क्र. 10 सरदार बल्लभभाई पटेल वार्ड

- उत्तर — रेस्ट हाउस रोड — श्री सत्यनारायण अग्रवाल — शांति निवास गली मिलान से तालीम खान निवास गली मिलान तक। पावर हाउस रोड न. 02 — तालीम खान निवास गली मिलान से भारत माता चौक तक।
- पूर्व — शांति — सत्यनारायण अग्रवाल निवास गली — रेस्ट हाउस रोड मिलान से पावर हाउस रोड न. 02 मिलान तक
- दक्षिण — पावर हाउस रोड न. 02 — सत्यनारायण अग्रवाल निवास गली मिलान से अलिमुद्दीन गली मिलान तक तथा अतिमुद्दीन गली से अम्बिकापुर रोड मिलान तक।
- पश्चिम — तालीम खान गली — रेस्ट हाउस रोड मिलान से पावर हाउस रोड न. 02 के मिलान तक। अम्बिकापुर रोड — पावर हाउस रोड न. 02 एवं भारत माता चौक के मिलान से अलिमुद्दीन गली के मिलान तक।

वार्ड क्र. 11 इंदिरा गांधी वार्ड

- उत्तर— रेस्ट हाउस रोड — हॉटल विमल श्री से शांति — सत्यनारायण अग्रवाल निवास गली के मिलान तक।
- पूर्व— हॉटल विमल श्री से पीपल पेड़ होकर तुलसी बाबु के आढ़त तक का लाईन।
- दक्षिण — पावर हाउस रोड न. 02 — तुलसी बाबु के आढ़त से केशव प्रसाद केशरी के मकान तक।
- पश्चिम — सत्यनारायण अग्रवाल — शांति निवास गली — पावर हाउस रोड न. 02 के मिलान से रेस्ट हाउस रोड के मिलान तक।

वार्ड क्र. 12 राजीव गांधी वार्ड

- उत्तर — अजय पुरी के घर से पूर्व की स्व. रुदेश गुप्ता घर होते शब्बीर अंसारी घर रोड क्रॉस कर महेन्द्र प्रजापति घर होते हुये करिश्मा रोड लाईन सुनील गुप्ता घर होते पूर्व की ओर चन्दन फर्निचर के नये घर तक
- पूर्व — चन्दन फर्निचर के नये घर से दक्षिण की ओर राधा कृष्णा मंदिर होते भूईया टोला रोड पुलिया तक।

- दक्षिण — भूईया टोला से नाला किनारे—किनारे पश्चिम की ओर अजय प्रजापति घर तक।
 पश्चिम — अजय प्रजापति घर से उत्तर की ओर होते हुये धनराज प्रजापति घर से उत्तर दिलीप गुप्ता घर से रोड क्रॉस पश्चिम की ओर स्व. सुरेश गुप्ता घर से पश्चिम की ओर होते हुये अशोक कश्यप घर से उत्तर की ओर अजय पुरी घर तक।

वार्ड क्र. 13 बाल गंगाधर तिलक वार्ड

- उत्तर — बारवहीं बटालियन बिन्दु से सीधा पूर्व की ओर शिशु मंदिर के पीछे होते हुये चन्द्रीका पुरी घर से दक्षिण की ओर भोला गुप्ता रोड क्रॉस से पूर्व रोड की ओर राजनाथ विश्वकर्मा वेल्डींग दुकान तक
 दक्षिण — सोनी के घर पश्चिम की ओर के दाहिने ओर पहाड़ी मंदिर प्रवेश द्वार तक।
 पूर्व — राजनाथ विश्वकर्मा वेल्डींग से दक्षिण—पूर्व होते हुये विरेन्द्र ठाकुर निवास होते प्रा.शा कोईरीटोला सुरेश ठाकुर घर से दक्षिण की पारस ठाकुर होते नहर तक नहर से पूर्व की ओर नहर के किनारे—किनारे सोनी जी के घर तक
 पश्चिम— दाहिने ओर पहाड़ी मंदिर प्रवेश द्वार से दक्षिण—पश्चिम संपूर्ण क्षेत्र होते हुये बारवहीं बटालियन मुख्य द्वार से पूर्व चिन्हांकित बिन्दु तक।

वार्ड क्र. 14 रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड

- उत्तर — ध्रुव ठाकुर घर से नाला किनारे—किनारे राजेन्द्र अग्रवाल के सामने पुल तक
 पूर्व — पुल से दक्षिण की ओर स्व. बैजनाथ सोनी घर से होते हुये सुरेश कश्यप घर होते नन्दु सोनी दुकान से रोड क्रॉस नहर तक
 दक्षिण — स्व. गिरधर गुप्ता कपड़ा दुकान से नहर किनारे—किनारे सी.सी. रोड से उत्तर में, पश्चिम की ओर मौलाना घर होते बाला कश्यप घर होते विनय ठाकुर घर तक सीधे में रोड क्रॉस करके विपिन सिंह घर से उत्तर ध्रुव ठाकुर घर तक
 पश्चिम — विपिन सिंह वकील घर से उत्तर की ओर ध्रुव ठाकुर घर के नाला तक

वार्ड क्र. 15 मदन मोहन मालवीय वार्ड

- उत्तर — राजेन्द्र अग्रवाल घर से पूर्व गोबरदाहा नाला तक
 पूर्व — गोबर दाहा नाला से दक्षिण अम्बिकापुर रोड पुल तक
 दक्षिण — अम्बिकापुर रोड फकीरा नाला होते पश्चिम की ओर नाला किनारे—किनारे पार्क गेट से होते पहाड़ी मंदिर प्रवेश द्वारा तक
 पश्चिम— पहाड़ी मंदिर प्रवेश द्वार से पूर्व की ओर संजय वर्मन घर तक संजय वर्मन घर से उत्तर की ओर रोड क्रॉस करके नन्दु सोनी दहीना हिस्सा स्व. गोपाल गुप्ता घर होते देवकुमार गुप्ता घर होते राजेन्द्र अग्रवाल घर तक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक एफ 1-37/2019/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-37/2019/18 दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar the 12th July 2019

NOTIFICATION

No. F 1-37/2019/18.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Ramanujganj, Distt. Balrampur Ramanujganj as per schedule given Below :-

1. Divides Nagar Panchayat Ramanujganj into 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

SCHEDULE

S.No.of ward	Name of the ward
1	Vinoba Bhawe Ward
2	Mahatma Gandhi Ward
3	Lal Bahadur Shashtri Ward
4	Jawahar Lal Nehru Ward
5	Chandrasekhar Azad Ward
6	Subhash Chandra Bose Ward
7	Jai Prakash Ward
8	Shivaji Ward
9	Vivekanand Ward
10	Sardar Vallabh Bhai Patel Ward
11	Indira Gandhi Ward
12	Rajiv Gandhi Ward
13	Bal Gangadhar Tilak Ward
14	Ravindra Nath Tagore Ward
15	Madan Mohan Malviya Ward

Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat Ramanujganj

Ward No 01 Vinova bhawe Ward

- North** - Arun Keshari Eta Bhattha from Kanhar River to East upto Ring Road Bridge.
- East** - From the culvert to the south, there is the channel from Kamal Singh Chauhan House to South Vimal Agarwal House and Shop.
- South** - Wadrafnagar road from Vimal Agarwal house to west side Wadrafnagar road to Jalkeshwar
- West** - Wadrafnagar road from Jalkeshwarpara to the northern part directly to the Kanhar river, from Arun Keshari Eta Bhattha along the banks of the Kanhar River to South Bridge.

Ward No 02 Mahatma Gandhi Ward

- North** - From Wadrafnagar road Atal Chowk near the hospital, on the east side, there was a Petrol Pump in Larang Sai Chowk, Bharat Mata Chowk.
- East** - From the Bharat Mata Chowk to the South, the IDSMT shopping complex.
- South** - The whole part of the northern part from the IDSMT shopping complex was the Bharat Tiwari home behind the Shishu Mandir and from Bharat Tiwari home to the Ring Road Milan to the west.
- West** - Ring road from point Ward No. 02 to ring road, Atal Chowk to Wadrafnagar and Larang Sai Road Milan.

Ward No 03 Lal Bahadur Shastri Ward

- North** - From the Barmund Ghat to the North East, the Bhauri Ghat, on the banks of the Kanahar River, from Milan to the west part of the under construction hostel building.
- East** - The west side of the hostel under construction is south to Suresh Tiwari bus stand ring road and Primary School Jailpara Milan
- South** - The north part of the college was towards the west towards the Child Education School.
- West** - Bridge to North side to Baramunda Ghat.

Ward No 04 Jawahar Lal Neharu Ward

- North** - From Arun Keshari Eta Bhattha to the bridge upto the college east direction from Jail road to the right bank along the edge of the Jail Road till the Water Resources Department from the Water Resources Department directly to the house of Ojhaji
- East** - From the house of Ojhaji, southward towards Late Diwakar Mishra was home to Gokul Hotel.
- South** - From Gokul Hotel to the Larang Sai Chowk Shoping Complex, to the West, to Shankar Gupta home.
- West** - In front of the petrol pump, directly towards north, Shankar Gupta was in the house, Nala to Arun Kesari, ita Bhattha.

Ward No 05 Chandrashekhar Aajad Ward

- North** - From the Primary School Jailpara to the Vyasmuni house on the east.
- East** - From the Vyasamuni house to the south, empty plot of Deepak Dubey, From the side of R.K. Yadav, directly towards the west, Gaurav Dubey's washing center, before the C.C. Road Surendran Vishwakarma was home to South, Ramesh Kushwaha, west of the house, The west side of the C.C. road is to the house of Satyanarayan Keshari
- South** - From Satyanarayan Keshari's house to the west, SDM, Tahsil office, to Sanjay Kashyap home.
- West** - Sanjay Kashyap From the north side of the house, towards the north of the Lakhan Rajak house, north of the front of Dilip Ojha house was north part of Ajay Gupta house, from Ajay Gupta's house north to Kasturba Residential School, to Primary School Jailpara.

Ward No 06 Subhashchandra Bos Ward

- North** - From Shailesh Gupta's house to the east, Ring Road Primary School Jailpara Road from Dubey Ghat Road to Birju Gupta home.
- East** - From Birjhu Gupta's home to South, Ma Sharada School to Tiwari Ji's house.
- South** - The Bus Stand Ring Road from Milan to Ashok Katakwar, towards the western part of the Police S tation, in front of Girls Primary School, there were West Chowpatty from Vimal Agency, from the traffic checkpoint to the west side court was Ambedkar Park.
- West** - From Ramesh Kushwaha house directly to North Surendra Vishwakarma from the house towards Gaurav Dube Washing Center, the land of Arvind Dubey, towards the empty plot towards the west, from the empty plot of Arvind Dubey to the house of Shailesh Gupta.

Ward No 07 Jaiprakash Ward

- North** - From the Under Construction hostel to Kanhar River Milan to Dubey Ghat Buddhatol Primary School road bridge Milan, and Bus Stand Chowk Thana, Hospital Road to the Old Agricultural Produce Market Office Road.
- East** - Kanhar River Buddhatola Nalla Milan to the south side of Lakh Factory.
- South** - Dayaram Rahgir, Police station in front of Old Mandi Office Road, crossing bank road east of Milan, Milan to Kanhar river Milan from the south side of Lakh Factory.
- West** - From south of Kanhaiya Soni towards South from opposite side of Manbhavana, towards west, CRPF Camp Bypassing the road cross near the road crossing the Anganwadi building, from the Thana road Milan to the Shiv Mandir Chowk, crossing the Shastri Chowk crossing towards the north, directly to the under construction hostel.

Ward No 08 Shivaji Ward

- North** - From the Forest Department office to the east side SDOP Office From the south, CRPF camp Road crossing in front of the Daily Use Home to Keshar Agarwal Khad Seed Shop.
- East** - Keshar Agarwal from the Khad Seed Shop to the South State Bank of India, Gandhi Chowk to Vijay Tiwari home.
- South** - Vijay Tiwari from the house to the west, towards the west side of the road, towards the road cross south of Dilip Soni, the house of Naresh Gupta, from the house, towards the west, towards Uma Hotel Road Cross Bharatmata Chowk.
- West** - From the Bharatmata Chowk to the north of the Forest Department Office.

Ward No 09 Vivekanand Ward

- North** - Somnath Pankha house in the east before the Manbhawan dresses, to Kanhar river bank.
- East** - On the banks of the Kanhar coast, on the south side, there is a temple of Ram Mandir, along the banks of the Fakira Nala border, towards Nala near Lakshmi Agarwal house.
- South** - Lakshmi Agarwal is on the edge of the nala near the Ajay Gupta (Contractor) gets to the new house to Aadhat chowk.
- West** - Vishwanath Saw was the house on the east side, from the Aadat Chowk to the north, the Pipal Chowk, the Gandhi Chowk and to the Manbhawan dresses.

Ward No 10 Sardar Vallabhbhai Patel Ward

- North** - Rest House Road - Satyanarayan Agarwal - From Shanti Niwas Gali Milan to Taleem Khan Residence Milan Power House Road No 02 - From Talim Khan Gali Milan to Bharat Mata Chowk.
- East** - Shanti - Satyanarayan Agarwal Niwas Gali - Rest House Road Milan upto Power House Road No. 02 milan.
- South** - Power House Road No 02 - Satyanarayan Agarwal Niwas Gali Milan to Alimuddin Gali Milan, and Alimuddin Gali to Ambikapur Road Milan.
- West** - Talim Khan Gali - Rest House Road Milan Power House Road No 02 Till matching Ambikapur Road - Power House Road No. 02 and Milan of Alamuiddin Gali from Milan to Bharat Mata Chowk.

Ward No 11 Indira Gandhi Ward

- North** - Rest House Road - Hotel Vimal Shree Shanti - To Satyanarayan Agarwal Niwas Gali Milan.
- East** - The line from Tulasi Babu's house to Pipal tree from Hotel Vimal Shree.
- South** - Power House Road No 02 - From Tulsi Babu's Aadhat to Keshav Prasad Keshari's house.
- West** - Satyanarayan Agarwal - Shanti Niwas Gali - Power House Road No. 02 Milan to Rest House Road Milan.

Ward No 12 Rajeev Gandhi Ward

- North** - From the house of Ajay Puri, Rudesh Gupta was in the house on the east side of the house. Shabbir Ansari home road crossing Mahendra Prajapati house Karishma road line Sunil Gupta is home to the new home of Chandan Furniture.
- East** - Radhakrishna Temple on the south side of the new house of Chandan Furniture, to Bhuiya Tola Road Bridge.
- South** - Ajay Prajapati to the west side of the nala bank along the banks of Bhuiya tola.
- West** - Ajay Prajapati coming from the house towards the north Dhanraj Prajapati from the house north from Dilip Gupta house Road cross towards the west suresh Gupta from the house towards the west Asoka Kashyap from the house to the Ajay Puri.

Ward No 13 Bal Gangadhar Tilak Ward

- North** - From the 12th Battalion point directly to the east side of the Shishu Mandir, from the Chandrika Bhawan to the south towards the Bhola Gupta Road cross towards East Road towards Rajnath Vishwakarma Welding Shop.
- East** - Soni's house to the west side of the Pahadi Mandir entrance gate.
- South** - From the Rajnath Vishwakarma Welding Shop to the southeast, Birendra Thakur used to stay in the Primary School Coitola Suresh Thakur from the house to the south to Paras Thakur to Nahar, from Nahar to east to Nahar border and to the house of Sony Ji
- West** - By the right side of the Pahadi Mandir entire part of the south-west from the main entrance door to the 12th Battalion point

Ward No 14 Ravindranath Taigor Ward

- North** - From Dhruv Thakur to the bridge in front of the river shore-edge Rajendra Agrawal.
- East** - Sureska Kashyap was home from the bridge to the south by Baijnath Soni, from Nandu Soni Shop to Road Cross.

- South** - Girdhar Gupta cloth Shop from the side of Nahar, on the side of C.C. road Bala Kashyap was home to Maulana home from the north road, Vinay Thakur directly to the house and crossing the road directly from Vipin Singh house to North Dhruv Thakur Ghar.
- West** - From Vipin Singh home to Dhruv Thakur home nala.

Ward No 15 Madan Mohan Malviya Ward

- North** - From Rajendra Agarwal home to east Gobardaha Nala.
- East** - From Gobardaha Nala to South Ambikapur Road Bridge.
- South** - Ambikapur road is the Fakirah Nala, towards the west side of the nala bank, from the park gate to the Pahadi Mandir entrance gate.
- West** - From the Pahadi Mandir entrance to the Sanjay Verman house till Sanjay Verman home, towards the north, crossing the road, Nandu Soni was the right part of Gopal Gupta, Devakumar Gupta was home to Rajendra Agarwal home.

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,
R.EKKA, Deputy Secretary.